



THE HI-TECH GEARS LTD.

CIN - L29130RJ1986PLC004536

Corporate Office : Millennium Plaza, Tower-B, Sushant Lok-I, Sector-27, Gurugram -122009,
Haryana, INDIA Tel. : +91(124) 4715100

May 29, 2019

**The Manager,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,
"Exchange Plaza", C-1, Block – G.M.
Bandra - Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400051**

**The Manager,
Listing Department,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400001**

Symbol – HITECHGEAR

Scrip code – 522073

Subject: Intimation of publication of Audited Financial Statement/ Results in Newspapers

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 33, 47 and other applicable regulations of SEBI (LODR) Regulations, 2015 the Audited Financial Statement (Consolidated and Standalone) for the financial year ended March 31, 2019 and the Audited Financial Results for the quarter ended March 31, 2019 was duly published in the following Newspaper:

- The Business Standard (National daily newspaper in English) – May 29, 2019
- Lokmat Jaipur (Regional daily newspaper in Hindi) – May 29, 2019

The copy of published notice is enclosed herewith for your reference.

You are requested to take the above information on records and oblige.

Thanking You

Yours faithfully,
For The Hi-Tech Gears Limited

Sunita Kumari

**S. K. Khatri
Company Secretary**



www.thehitechgears.com

Head Office : C-41/B, Kalkaji, New Delhi-110019 INDIA

Regd. Office & Works I : A-589, Industrial Complex, Bhiwadi - 301 019 Rajasthan INDIA Tel. : +91(1493) 265000

Works-II : Plot No. 24 - 26 Sector-7, IMT Manesar - 122 050 Gurugram, Haryana INDIA Tel.: +91 (124) 4715200

Works-III : Plot No. SP-146A, Industrial Complex, Bhiwadi - 301019 Rajasthan INDIA

Subsidiaries : The Hi-Tech Gears Canada. Inc. 361, Speedvale Ave W. Guelph, ON N1H 1C7, CANADA

Teutech LLC. 227, Barton St. Emporium. PA 15834, USA

DEMAND NOTICE
Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act) read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules). In exercise of powers conferred under Section 13(2) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorised Officer of IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of the Borrower(s), amount due as on date of Demand Notice and i.e. 22-05-2019 security offered towards repayment of loan amount are as under:-

Name of the Borrower(s) / Guarantor (s)	Demand Notice Date and Amount	Description of secured asset (immovable property)
1. Ravindra Singh 2. Manoj Lata Devi (Prospect No. 804185)	22-05-2019 Rs. 14,08,004/-	All that piece and parcel of House No.D-239 and D-240, Kalini Vihar, Mauza Naraiach, Tehsil Etmadpur, District Agra, Uttar Pradesh

If the said Borrowers fail to make payment to IIFL HFL as aforesaid, IIFL HFL may proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences of the Borrowers.
For further details please contact to Authorised Officer at Branch Office :- 5th Floor, Lohiya Jain IT Park, Chandani Chowk, Kothrud Pune-411038 and/or Corporate Office : Plot No. 98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana.
Place: Agra Date: 29-05-2019 Sd/- Authorised Officer For IIFL Home Finance Limited (IIFL HFL)

DEMAND NOTICE
Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act) read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules). In exercise of powers conferred under Section 13(2) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorised Officer of IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of the Borrower(s), amount due as on date of Demand Notice and i.e. 27-05-2019 security offered towards repayment of loan amount are as under:-

Name of the Borrower(s) / Guarantor (s)	Demand Notice Date and Amount	Description of secured asset (immovable property)
1. Deepak Kumar Sahariya 2. Puspaha Sahariya (Prospect No. 774166)	27-05-2019 Rs. 13,46,522/-	All that piece and parcel of Plot No.25, Upper Ground Floor(U/GF) Back Side, TA-Block, Uttam Nagar, Delhi

If the said Borrowers fail to make payment to IIFL HFL as aforesaid, IIFL HFL may proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences of the Borrowers.
For further details please contact to Authorised Officer at Branch Office :- Plot No. 30/30E, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg, Najafgarh Road, Beside Jaggar Showroom, New Delhi and/or Corporate Office : Plot No. 98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana.
Place: Delhi Date: 29-05-2019 Sd/- Authorised Officer For IIFL Home Finance Limited (IIFL HFL)

DEMAND NOTICE
Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act) read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules). In exercise of powers conferred under Section 13(2) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorised Officer of IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of the Borrower(s), amount due as on date of Demand Notice and i.e. 27-05-2019 security offered towards repayment of loan amount are as under:-

Name of the Borrower(s) / Guarantor (s)	Demand Notice Date and Amount	Description of secured asset (immovable property)
1. Rakesh Jain, 2. Bilendra Jain, 3. Seema (Prospect No. 847723)	27-05-2019 Rs. 20,63,058/-	All that piece and parcel of House Constructed on Part of Plot No.9, Part of Kharsa No.69, Mauza Kalwari Durgesh Puri Colony, Agra, Uttar Pradesh

If the said Borrowers fail to make payment to IIFL HFL as aforesaid, IIFL HFL may proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences of the Borrowers.
For further details please contact to Authorised Officer at Branch Office :- 1st Floor, Shop No. 128/13, Manuli Plaza, Near G.G Hospital, Sanjay Place, Agra, Uttar Pradesh- 282002 and/or Corporate Office : Plot No. 98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana.
Place: Agra Date: 29-05-2019 Sd/- Authorised Officer For IIFL Home Finance Limited (IIFL HFL)

HEAVY ENGINEERING CORPORATION LIMITED
DHURWA, RANCHI - 834004
OPEN TENDER NOTICE

Plant	SI No	Tender No. & Date	Brief of Item	Qty	Last date of submission of Tender	Tender Opening Date & Time	Delivery Required
Foundry Forge Plant	1	PUR/FFP/2019/360098/06/361 dtd. 24.05.2019	Supply of Deodar Wood Sleeper Grade II	55 CuM	12.06.2019 till 1:00 PM	12.06.2019 at 3:30 PM	Within 4 weeks from the date of P.O.

For detail of Tender, please visit www.hectltd.com and <https://eprocure.gov.in>. For any changes/ notification including extension of bid submission due date pertaining to this tender shall be published/hoisted only on website www.hectltd.com or www.eprocure.gov.in

HEC BUILDS THE MACHINES THAT BUILD THE NATION

NOTICE REGARDING "POSTPONEMENT OF BOARD MEETING"
Notice is hereby given under Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the meeting of the Board of Directors of the Company to be held on Wednesday, 29th May, 2019, inter-alia, to consider and approve the Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the Half Year and Financial Year ended 31st March, 2019 has been rescheduled to Thursday, 30th May, 2019. In view of the same in terms of the Company's Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading by insiders, Trading Window for trading in the shares of the Company shall remain closed till 4th June, 2019.
For NARAYANI STEELS LIMITED
Sd/-
Place : Kolkata (Arun Kumar Meher)
Date : 28.05.19 Company Secretary

JAGSONPAL PHARMACEUTICALS LIMITED
CIN: L74899DL1978PLC009181
Registered Office : T-210 J, Shapur Jat, New Delhi- 110 049 Phone : 011-46181100 & 46109900, Fax : 01126493841, Website: www.jagsonpal.com, email: cs@jagsonpal.com

Extract of Standalone Audited Financial Results for the Quarter ended 31.03.2019 and Year Ended 31.03.2019

Particulars	Standalone		12 Months		12 Months	
	Quarter Ended		Year Ended		Year Ended	
	31.03.2019 Audited	31.03.2018 Unaudited	31.03.2019 Audited	31.03.2018 Unaudited	31.03.2019 Audited	31.03.2018 Unaudited
1 Total Income from operations	3840.22	3267.31	4189.45	16682.56	12660.42	
2 Net Profit from ordinary activities after tax	297.46	-122.95	174.43	721.61	-1155.06	
3 Net Profit for the period after tax (after extraordinary items)	297.46	-122.95	174.43	721.61	-1155.06	
4 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	297.46	-122.95	174.43	721.61	-1155.06	
5 Paid up Equity Share Capital (Face value Rs. 5/- per share)	1309.90	1309.90	1309.90	1309.90	1309.90	
6 Earnings Per Share (Not annualised)						
Basic (Rs.)	1.14	-0.47	0.67	2.75	-4.41	
Diluted (Rs.)	1.14	-0.47	0.67	2.75	-4.41	

Notes:
1) The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on May 28, 2019.
2) In line with the provisions of Ind AS 18, the Company operates in one reportable business segment i.e. 'Pharmaceuticals'.
3) Figures for the previous periods have been regrouped, wherever necessary, to correspond with the figures of the current period.
4) The above results are available on website of the company www.jagsonpal.com and on the Website of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com).
5) According to the requirements of Ind AS and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, revenue for the corresponding Year ended March 31, 2018 were reported inclusive of Excise Duty. The Government of India has implemented Goods and Service Tax ("gst") from July 01, 2017 replacing Excise Duty, Service Tax and various indirect taxes. AS per Ind AS 18, the revenue for the Year ended 31-03-2019, is reported net of GST and is not comparable with previous reported year.
6) Provision for taxation includes provision for current tax.
7) The Board of Directors has proposed a dividend of Rs 0.25 per Equity Shares of Rs 5/- each.
8) Figures for the quarter ended 31st March 2019 are balancing figures between the audited figures in respect of full financial year ended 31st March 2019 and published figure upto 3rd quarter ended 31st December 2018.

By Order of the Board
For Jagsonpal Pharmaceuticals Limited
Sd/-
Rajpal Singh Kochhar
Managing Director
DIN No 00059492

Place : New Delhi
Date : 28-05-2019

RENAISSANCE GLOBAL LIMITED
(FORMERLY RENAISSANCE JEWELLERY LTD.)
CIN L36911MH1989PLC054498
Regd Office : Plot Nos. 36A & 37, SEEPZ-SEZ, Andheri (East), Mumbai - 400 096.

EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER / YEAR ENDED MARCH 31, 2019

Sr No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		Mar 31, 2019 Audited	Dec 31, 2018 Unaudited	Mar 31, 2018 Audited	Mar 31, 2018 Audited
		1 Total Income from Operations (net)	70,715.70	82,237.16	45,046.96
2 Net Profit before tax and Exceptional items	302.66	4,726.13	743.33	9,115.67	7,499.47
3 Net Profit after tax and Exceptional items	1,209.87	3,814.82	950.95	8,525.92	6,432.72
4 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	2,991.54	8,401.04	(1,749.03)	11,603.78	4,415.60
5 Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- each)	1,868.30	1,868.30	1,868.30	1,868.30	1,868.30
6 Earning Per Share EPS (of ₹ 10/- each not annualised)					
Basic	7.28	19.95	3.88	44.20	33.45
Diluted	7.28	19.95	3.88	44.20	33.45

NOTES:
1) The above unaudited Consolidated Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May 28, 2019.
2) The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financials results are available on the websites of Stock Exchanges www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website www.renaissanceglobal.com.
3) Key numbers of Standalone Results are as under:

Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
	Mar 31, 2019 Audited	Dec 31, 2018 Unaudited	Mar 31, 2018 Audited	Mar 31, 2018 Audited
Revenue	28,160.66	40,639.66	25,234.79	126,048.90
Profit Before Tax	514.51	667.80	(425.84)	3,534.52
Profit After Tax	428.78	470.11	(71.57)	2,653.56
Total Comprehensive income for the period after tax	1,388.11	2,202.45	(804.16)	3,292.41

For RENAISSANCE GLOBAL LIMITED
NIRANJAN A. SHAH
EXECUTIVE CHAIRMAN

Place : Mumbai
Dated : May 28, 2019

TNPCL TAMIL NADU NEWSPRINT AND PAPERS LIMITED
Regd. Office: 67, MOUNT ROAD, GUINDY, CHENNAI - 600 032.
CIN: L22121TN1979PLC007799 Web: www.tnpcl.com

EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

Particulars	Quarter ended		Year ended	
	31.03.2019 (Audited)	31.03.2018 (Audited)	31.03.2019 (Audited)	31.03.2018 (Audited)
	Total income from operations (Net)	1048.28	1050.53	4082.71
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	100.14	57.65	228.39	(27.99)
Exceptional items	73.19	0.00	73.19	0.00
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	26.95	57.65	155.20	(27.99)
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	13.49	33.10	94.39	(42.15)
Total comprehensive Income for the period (Net of Tax)	11.40	32.68	90.27	(39.05)
Equity Share Capital (Face value of share of Rs.10/-each)	69.21	69.21	69.21	69.21
Reserves (excluding revaluation reserve)			1582.30	1533.75
Earnings per share (of Rs.10/ Share) (Before and after extraordinary items) (not annualised) - Basic and Diluted EPS-(in Rs)	1.95	4.78	13.64	(6.09)

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of audited financial Results for the year ended 31.03.2019 are available on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com, www.nseindia.com and on company's website www.tnpcl.com.
2. Exceptional items includes Rs. 57.60 Crore being the provision for outstanding deposits/advances and other receivables made to companies for securing supply of bagasse and also includes Rs.15.59 Crore towards provision for impairment of intangible asset - "Right to procure bagasse". These amounts were considered doubtful of recovery based on defaults in repayment commitments together with an assessment of financial status of the loanee companies with whom the company placed these advances/deposits for procurement of bagasse.
3. The above audited financial results have been reviewed by Audit committee and approved by Board of Directors on 28.05.2019.
4. The Board of Directors has recommended a dividend of Rs. 7.50/- per share on the face value of Rs.10/-for the financial year 2018-19.

Place : Chennai - 32
Date : 28.05.2019
DIPR/439/DISPLAY/2019

For and on behalf of the board
S. SIVASHANMUGARAJA IAS
MANAGING DIRECTOR

Government of Jharkhand Department of Mines & Geology Directorate of Mines
Nepal House (Yojna Bhavan), Doranda, Ranchi - 834002, Email jhr_mines@yahoo.in

Ref.: PR204453 Mines and Geology (18-19) D
Corrigendum#2
"Invitation of Bid for grant of Mining Lease"
In accordance with Clause 13.7 of the Tender Document, for the purpose of grant of mining lease, the schedule dates for the auction of Minor Mineral Blocks are hereby being extended. Terms and conditions, deadlines etc. for participating in the electronic auction are provided in the Tender Document. The Model Tender Document for the Mineral Block and Mineral Block Summary are available free of cost in electronic form and can be downloaded from website of MSTC <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/jharkhand/index.jsp> for the purpose of information only. Timelines, notification, updates and other details of the e-auction process are available on the website of MSTC and Department of Mines & Geology from the website of Govt. of Jharkhand <http://www.jharkhand.gov.in/mines-geology>.

The details of the mineral blocks summarized below:

#	Block	Mineral	District	Concessi on Area	Resource	Tender Document No.	Last Date of sale of Tender Document on MSTC website	Last Date of submission of technical bid & IPO on MSTC website	Date of Opening of Tender
1	Bidri Stone Block	Stone	Saraikela-Kharsawan	12.20 Acres	Stone- 1.36 MT	MSTC/RNC/DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY/27/RANCHI/18-19/34973	June 19, 2019	June 19, 2019	June 20, 2019
2	Gorinda Stone Block	Stone	East Singhbhum	2.07 Acres	Stone- 0.356 MT	MSTC/RNC/DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY/31/RANCHI/18-19/34977	June 17, 2019	June 17, 2019	June 18, 2019
3	Jamtoli Stone Block	Stone	Simdega	1.70 Ha	Stone- 0.77 MT	MSTC/RNC/DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY/33/RANCHI/18-19/34979	June 12, 2019	June 12, 2019	June 13, 2019
4	Matal & Kerketa Stone Block	Stone	East Singhbhum	4.00 Acres	Stone- 0.60 MT	MSTC/RNC/DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY/51/RANCHI/18-19/35036	June 19, 2019	June 19, 2019	June 20, 2019
5	Sarangposi Stone Block- 9.00 Acres	Stone	Saraikela-Kharsawan	9.00 Acres	Stone- 2.04 MT	MSTC/RNC/DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY/59/RANCHI/18-19/35044	June 19, 2019	June 19, 2019	June 20, 2019
6	Sarangposi Stone Block- 9.28 Acres	Stone	Saraikela-Kharsawan	9.28 Acres	Stone- 3.63 MT	MSTC/RNC/DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY/57/RANCHI/18-19/35042	June 12, 2019	June 12, 2019	June 13, 2019
7	Tiksiring Stone Block	Stone	East Singhbhum	2.85 Acres	Stone- 0.39 MT	MSTC/RNC/DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY/63/RANCHI/18-19/35048	June 17, 2019	June 17, 2019	June 18, 2019

Those interested and eligible for bidding can participate in the bidding only after online purchase of the Tender Document on payment of the tender fee of INR 25,000 (Rupees Twenty Five Thousand) plus taxes, if any per mineral block from the website of e-auction platform provider. After purchase of the Tender Document, eligible bidders can register themselves on the above mentioned website. On successful registration, eligible bidder will obtain Login ID and password necessary for participation in the e-auction process. Such bidders who have already registered/purchased tender document from website of MSTC are not required to register/purchase the same again. Also, the bidders who have submitted their bids online on the MSTC portal and in hard copy to the Department of Mines and Geology are not required to do the same again.

PR 202725 Mines and Geology (19-20)_D

Government of Jharkhand Department of Mines & Geology Directorate of Mines
Nepal House (Yojna Bhavan), Doranda, Ranchi - 834002, Email jhr_mines@yahoo.in
Ref.: PR204215 (Mines and Geology) 18-19
Corrigendum#2
"Invitation of Bid for grant of Mining Lease"

In accordance with Clause 13.7 of the Tender Document, for the purpose of grant of mining lease, the schedule dates for the auction of Minor Mineral Blocks are hereby being extended. Terms and conditions, deadlines etc. for participating in the electronic auction are provided in the Tender Document. The Model Tender Document for the Mineral Block and Mineral Block Summary are available free of cost in electronic form and can be downloaded from website of MSTC <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/jharkhand/index.jsp> for the purpose of information only. Timelines, notification, updates and other details of the e-auction process are available on the website of MSTC and Department of Mines & Geology from the website of Govt. of Jharkhand <http://www.jharkhand.gov.in/mines-geology>.

The details of the mineral blocks summarized below:

#	Block	Mineral	District	Concessi on Area	Resource	Tender Document No.	Last Date of sale of Tender Document on MSTC website	Last Date of submission of technical bid & IPO on MSTC website	Date of Opening of Tender
1	Aseahar Stone Block-6.80 Ha	Stone	Palamu	6.80 Ha	Stone- 4.60 MT	MSTC/RNC/DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY/19/RANCHI/18-19/34983	June 12, 2019	June 12, 2019	June 13, 2019
2	Asiya Stone & Murram Block	Stone & Murram	Hazaribag h	6.20 Ha	Stone- 2.78 MT and Murram- 0.041MT	MSTC/RNC/DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY/21/RANCHI/18-19/34987	June 12, 2019	June 12, 2019	June 13, 2019
3	Bhamo Stone Block-6.86 Ha	Stone	Gumla	6.86 Ha	Stone- 7.46 MT	MSTC/RNC/DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY/23/RANCHI/18-19/34989	June 12, 2019	June 12, 2019	June 13, 2019
4	Bhamo Stone Block-7.70 Ha	Stone	Gumla	7.70 Ha	Stone- 4.42 MT	MSTC/RNC/DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY/25/RANCHI/18-19/34971	June 17, 2019	June 17, 2019	June 18, 2019
5	Gahora Stone Block	Stone	Palamu	5.00 Ha	Stone- 3.25 MT	MSTC/RNC/DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY/29/RANCHI/18-19/34975	June 19, 2019	June 19, 2019	June 20, 2019
6	Japud Stone Block	Stone	Khunti	6.01 Ha	Stone- 4.62 MT	MSTC/RNC/DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY/35/RANCHI/18-19/34982	June 12, 2019	June 12, 2019	June 13, 2019
7	Khardiha Stone Block-9.41 Ha	Stone	Palamu	9.41 Ha	Stone- 4.395 MT	MSTC/RNC/DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY/37/RANCHI/18-19/34984	June 19, 2019	June 19, 2019	June 20, 2019
8	Kulabira Stone Block-13.65 Ha	Stone	Gumla	13.65 Ha	Stone- 14.693 MT	MSTC/RNC/DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY/39/RANCHI/18-19/34988	June 12, 2019	June 12, 2019	June 13, 2019
9	Kulabira Stone Block-32.50 Ha	Stone	Gumla	32.50 Ha	Stone- 38.388 MT	MSTC/RNC/DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY/41/RANCHI/18-19/34991	June 19, 2019	June 19, 2019	June 20, 2019
10	Kulabira Stone Block-34.92 Ha	Stone	Gumla	34.92 Ha	Stone- 58.974 MT	MSTC/RNC/DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY/43/RANCHI/18-19/34991	June 17, 2019	June 17, 2019	June 18, 2019
11	Lolo Stone Block- 5.21 Ha	Stone	Ramgarh	5.21 Ha	Stone- 2.545 MT	MSTC/RNC/DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY/45/RANCHI/18-19/34993	June 19, 2019	June 19, 2019	June 20, 2019
12	Lolo Stone Block- 6.07 Ha	Stone	Ramgarh	6.07 Ha	Stone- 3.00 MT	MSTC/RNC/DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY/47/RANCHI/18-19/34993	June 17, 2019	June 17, 2019	June 18, 2019
13	Luhur Stone Block	Stone	Latehar	8.40 Ha	Stone- 2.10 MT	MSTC/RNC/DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY/49/RANCHI/18-19/34994	June 17, 2019	June 17, 2019	June 18, 2019
14	Merali Stone Block	Stone	Garhwa	5.10 Ha	Stone- 1.87 MT	MSTC/RNC/DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY/53/RANCHI/18-19/35000	June 19, 2019	June 19, 2019	June 20, 2019
15	Senha Stone Block	Stone	Lohardag a	9.30 Ha	Stone- 11.04 MT	MSTC/RNC/DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY/61/RANCHI/18-19/35046	June 17, 2019	June 17, 2019	June 18, 2019

(MT – Million Metric Tonnes)
Those interested and eligible for bidding can participate in the bidding only after online purchase of the Tender Document on payment of the tender fee of INR 25,000 (Rupees Twenty Five Thousand) plus taxes, if any per mineral block from the website of e-auction platform provider. After purchase of the Tender Document, eligible bidders can register themselves on the above mentioned website. On successful registration, eligible bidder will obtain Login ID and password necessary for participation in the e-auction process. Such bidders who have already registered/purchased tender document from website of

